

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 सितम्बर 2023—भाद्र 29, शक 1945

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

क्र For/2/0010/2023/Sec-2-10

यतः राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उल्लिखित अनुसूची के क्षेत्र, जो नौरादेही अभयारण्य की सीमा के अंदर है, पारिस्थितिक, पशु वर्ग, वनस्पति, जियो-मार्सियोलॉजिकल या प्राणी विज्ञान संबंधी महत्व के कारणों से नौरादेही (वन्यजीव) और वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य को उनमें तथा उनके आस-पास वन्य पशुओं के संरक्षण, वृद्धि, विकास के प्रयोजन के लिए टाईगर रिजर्व के रूप में गठन किया जाना आवश्यक है।

अतएव वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38फ की उपधारा (4) के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, क्षेत्रों को वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व, सागर के कोर क्षेत्र के रूप में घोषित करती है, अर्थात्:-

विवरण

1. टाईगर रिजर्व का नाम -वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व, (कोर एरिया)
2. टाईगर रिजर्व के कोर 1 एवं 2 की सीमाएं-
 - (अ) जिला-सागर, दमोह तथा नरसिंहपुर
 - (ब) नौरादेही वन्यजीव वनमंडल, एवं दमोह वनमंडल
 - (स) कोर क्षेत्र-कोर क्षेत्र-1 -1390.036 वर्ग किलोमीटर
-कोर क्षेत्र-2 -23.97 वर्ग किलोमीटर

क्र	मंडल कानाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	वन क्षेत्र	रकबा (हे.)
1	नौरादेही (वन्य जीव) वनमंडल, सागर	कोर एरिया-1 वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व	कोर एरिया-1 नौरादेही अभयारण्य का क्षेत्र- आर.एफ. - 102344.088 हे. पी.एफ. - 17806.200 हे. 1. विस्थापित ग्रामों का क्षेत्र - 2130.593 हे. 2. विस्थापित ग्रामों का प्रस्तावित क्षेत्र - 16722.679 हे.	139003.560
2	वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य सिंगौरगढ़ (वनमण्डल दमोह)	कोर एरिया-2 वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व	बीट बघनी आर.एफ. - 308 बीट सिंगौरगढ़ आर.एफ. - 309 बीट दानीताल आर.एफ. - 310 बीट सिंगौरगढ़ आर.एफ. - 312 बीट निदान आर.एफ. - 313	600.50 429.00 580.70 266.30 520.80
		कुल	5 कम्पार्टमेंट	2397.300
			योग	141400.860

उक्त कोर क्षेत्र में सम्मिलित वनकक्षों के ब्यौरे, अनुसूची-1 में, विस्थापित ग्रामों का क्षेत्र अनुसूची-2 में तथा विस्थापित किए जाने वाले ग्रामों का क्षेत्र अनुसूची-3 में है।

(द) सीमाओं का विवरण -

(क) टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र-1 की सीमाओं के ब्यौरे-

भौगोलिक निर्देशांक:-

निर्देशांक

दिशा	अक्षांश	देशांतर
उत्तर	23 ⁰ 42'23.82"N	79 ⁰ 16'25.79"E
पूर्व	23 ⁰ 34'28.53"N	79 ⁰ 24'43.15" E
दक्षिण	23 ⁰ 05'18.39"N	79 ⁰ 06'47.15"E
पश्चिम	23 ⁰ 12'11.64"N	79 ⁰ 03'08.95"E

टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र-1 की सीमाओं का विवरण:-

उत्तर:-कक्ष क्रमांक 142, 141 की उत्तरी सीमा से होते हुए, कक्ष क्रमांक 140, 139, 136, 134, 129, 126 की उत्तरी सीमा से होते हुए कक्ष क्र. 124, 123, 122, 120, 119, 118 की पश्चिमी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 117, 102, 103, 104, 105 की उत्तरी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 114, 111, 113, 112, 110, 133, 126, 127, 159 पूर्वी सीमा तक।

पूर्व:- कक्ष क्रमांक 161, 162, 172, 173 की पूर्वी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 171, 164 की उत्तरी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 169 की पूर्वी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 167, 166, 138, 137, 116, पी. 130 की उत्तरी पूर्वी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 135, 133, 136, 134, 135, पी. 137, 141, 143, 144 की पूर्वी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 140, 139, 200, 198 की दक्षिणी

सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 197, 203, 205, पी. 49 की पूर्वी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 220, 221, 224, पी. 215, 225 की पूर्वी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 275, 278, 280 की उत्तरी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 279, 274, 273, 267, पी. 211 की पूर्वी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक पी. 210, 262, 261 की उत्तरी पूर्वी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक पी. 207, पी. 208, 263 की दक्षिणी सीमा पूर्वी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 257, 256, 258, 259 की उत्तरी पूर्वी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक पी. 201 की पूर्वी सीमा तक।

दक्षिण:-कक्ष क्रमांक पी. 201 की पूर्वी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 246, 247, 474, 470, 469, 459 की दक्षिणी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 452, 453, 454, 452, 290 की पश्चिमी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 291, 292, 253 की पूर्वी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक पी. 85, 292, पी. 86, 295, 296, पी. 87 की दक्षिणी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 258, 300, 302, 303, पी. 93 की दक्षिणी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक पी. 92, पी. 91, पी. 90, 299, 297 की पश्चिमी सीमा तक।

पश्चिम:-कक्ष क्रमांक 294, 291, 290, 288, 287 की उत्तरी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 286, 254, 277 की पश्चिमी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 265, 266, 276, 269, 252, 251 की पश्चिमी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 269, 268 की उत्तरी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 271, 240, 242, 243 की दक्षिणी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 245, 237, 236, पी. 261, पी. 212 की पश्चिमी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 213, 223, 222 की उत्तरी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 217, 206, 193 की पश्चिमी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 192, 208, पी. 254 की दक्षिणी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक पी. 50, 188 की पश्चिमी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 191, 194, 195, 176, 174 की उत्तरी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 173, 178, पी. 46, 181, 182, 183, 184, 185 की दक्षिणी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 147 की पश्चिमी सीमा से होते हुए कक्ष क्रमांक 144, 143 की दक्षिणी सीमा तक।

(ख) टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र-2 की सीमाएं

भौगोलिक निर्देशांक:-

निर्देशांक

दिशा	अक्षांश	देशांतर
उत्तर	23 ⁰ 33'59.94"N	79 ⁰ 45'25.79" E
पूर्व	23 ⁰ 31'20.39"N	79 ⁰ 49'19.81" E
दक्षिण	23 ⁰ 30'47.76"N	79 ⁰ 48'28.44" E
पश्चिम	23 ⁰ 32'13.16"N	79 ⁰ 42'41.58" E

टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र-2 की सीमाओं का विवरण:-

उत्तर:- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 300 की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 21 एवं पी.एफ. 19 की सीमा।

पूर्व:- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 311 की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 04, ग्राम तिलगांव की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 03 की सीमा, ग्राम तिलगांव की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 02, आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 315 की सीमा।

दक्षिण:-आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 314 की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 73 एवं पी.एफ. 74 की सीमा तथा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 317 की सीमा।

पश्चिम:-आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 307 की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 64 की सीमा, ग्राम बंदरकोला की सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

क्रमांक For-2-0010-2023-Sec-2-दस.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक For-2-0010-2023-Sec-2-दस, दिनांक 20 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 20th September 2023

S.No.For/2/0010/2023/Sec-2-10

Whereas, the State Government appears to have the areas of the outlined schedule, which are within the limits of the Nauradehi Sanctuary. For reasons of ecological, animal class, flora, geo-martialological or zoological importance, Nauradehi (Wild Life) & Veerangana Drugavati Sanctuary is required to be formed as a Tiger Reserve for the purpose of conservation, growth and development of forest animals in and around them.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (iv) of section 38V of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government, hereby, declares the areas as Veerangana Durgavati Tiger Reserve, Sagar namely:-

Details

1. Name of Tiger Reserve - Veerangana Durgavati Tiger Reserve (Core Area)
2. Boundaries of Tiger Reserve Core - 1 and 2
 - i. District - Sagar, Damoh and Narsinghpur
 - ii. Forest Division - Nauradehi Wildlife Forest Division and Damoh Division
 - iii. Core Area - Core Area-1 -1390.036 Sq. Km.
- Core Area-2 - 23.97 Sq. Km.

Core Area

Ø-	Name of Division	Name of Proposed Area	Forest Area	Area(Ha.)
1	Nauradehi (Wildlife) Division Sagar	Core Area-1 Veerangana Durgavati Tiger Reserve	Core Area-1 Area of Nauradehi Sanctuary - RF -102344.088 ha. - PF - 17806.200 ha. 1. Area of Relocated Villages - 2130.593 ha. 2. Proposed Area of Relocated Villages -16722.679 ha.	139003.560
2	Veerangana Durgavati Sanctuary Singorgarh (Division Damoh)	Core Area-2 Veerangana Durgavati Tiger Reserve	Beet Baghni RF-308 Beet Singorgarh RF-309 Beet Danital RF-310 Beet Singorgarh RF-312 Bcet Nidan RF-313	600.50 429.00 580.70 266.30 520.80
		Total	5 Compt.	2397.300
			Total -	141400.860

The details of forest compartment included in the above core area are in Schedule-1, the area of the relocated villages are in Schedule-2 and the area of to be relocated villages are in Schedule-3.

iv . Description of boundaries -

(A) Details of Boundaries of Tiger ReserveCore-I

Geographical coordinates

Direction	Coordinate	
	Latitude	Longitude
North	23 ⁰ 42'23.82"N	79 ⁰ 16'25.79"E
East	23 ⁰ 34'28.53"N	79 ⁰ 24'43.15"E
South	23 ⁰ 05'18.39"N	79 ⁰ 06'47.15"E
West	23 ⁰ 12'11.64"N	79 ⁰ 03'08.95"E

Details of Boundaries of Tiger Reserve of Core - 1 -

North - Northern Boundary of Compartment no. 142, 141 to northern boundary of compartment no. 140, 139, 136, 134, 129, 126 to western boundary of compartment no. 124, 123, 122, 120, 119, 118 to northern boundary of compartment no. 117, 102, 103, 104, 105 to eastern boundary of compartment no. 114, 111, 113, 112, 110, 133, 126, 127, 159.

East - Eastern boundary of compartment no. 161, 162, 172, 173 to northern eastern boundary of compartment no. 171, 164 to eastern boundary of compartment no. 169 to northern eastern boundary of compartment no. 167, 166, 138, 137, 116,P 130 to eastern boundary of eastern boundary of compartment no. 135, 133, 136, 134, 135,P 137, 141, 143, 144 to southern eastern boundary of compartment no. 140, 139, 200, 198 to eastern boundary of 197, 203, 205,P 49 to eastern boundary of compartment no. 220, 221, 224,P 215, 225 to northern eastern boundary of compartment no. 275, 278, 280 to eastern boundary of compartment no. 279, 274, 273, 267,P 211 to northern eastern boundary of compartment no. P 210, 262, 261 to southern eastern boundary of compartment no. P 207,P 208, 263 to Northern eastern boundary of compartment no. 257, 256, 258, 259 to eastern boundary of compartment no. 201.

South - Eastern boundary of compartment no. P 201 to Southern boundary of compartment no. 246, 247, 474, 470, 469, 459 to western boundary of compartment no. 452, 453, 454, 452, 290 to eastern boundary of compartment no. 291, 292, 253 to southern boundary of P 85, 292, P 86m 295, 296, P 87 to southern boundary of 258, 300, 302, 303, P 93 to western boundary of compartment no. P 92, P 91, P 90, 299, 297.

West - Northern boundary of compartment no. 294, 291, 290, 288, 287 to western boundary of compartment no. 286, 254, 277 to western boundary of compartment no. 265, 266, 276, 269, 252, 251 to northern boundary of compartment no. 269, 268 to southern boundary of compartment no. 271, 240, 242, 243 to western boundary of compartment no. 245, 237, 236, P 261, P 212 to northern boundary of compartment no. 213, 223, 222 to western boundary of 217, 206, 193 to southern boundary of compartment no. 192, 208, P 254 to western boundary of compartment no. P 50, 188 to northern boundary of 191, 194, 195, 176, 174 to southern boundary of 173, 178, P 46, 181, 182, 183, 184, 185 to western boundary of compartment no. 147 to southern boundary of compartment no. 144, 143.

(B). Details of Tiger Reserve Core-2

Geographical coordinates

Direction	Coordinate	
	Latitude	Longitude
North	23°33'59.94"N	79°45'24.52"E
East	23°31'20.39"N	79°49'19.81"E
South	23°30'47.76"N	79°48'28.44"E
West	23°32'13.16"N	79°42'41.58"E

Details of Boundaries of Tiger Reserve of Core - 2

North - Reserve Forest Compartment No. 300's boundary, PF Compartment No. PF 21 and PF 19's boundary.

East - Reserve Forest Compartment No. 311's boundary, PF Compartment No. PF 04, Village Tilgaon's boundary, PF Compartment No. PF 03's boundary, village Tilgaon's boundary, PF Compartment No. 02, RF Compartment No. 315's boundary.

South - Reserve Forest Compartment No. 314's boundary, PF Compartment No. PF 73 and PF 74's boundary and RF Compartment No. 317's boundary.

West - Reserve Forest Compartment No. 307's boundary, PF Compartment No. 64's boundary, village Bandarkola's boundary.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

अनुसूची-1

कोर-1 (नौरादेही अभयारण्य क्षेत्र) के अंतर्गत वृत्त एवं बीटों एवं कक्षवार रकबा की जानकारी

जिले का नाम		प्रबंध योजना के अनुसार आरक्षित एवं संरक्षित वन कक्षों का रकबा									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		परिक्षेत्र का नाम	वृत्त का नाम	बीट का नाम	आरक्षित वन कक्ष	रकबा हे. में	संरक्षित वन कक्ष	रकबा हे. में	कॉलम 7+9		
			मोहली	मोहली उत्तर	181	320.917	46	139.740			
							182	244.025	47	27.842	
							176	195.058			
							177	202.748			
							178	226.219			
							Total	1188.967		167.582	1356.549
					मोहली पश्चिम	218	198.296	49	92.581		
							219	184.941			
							220	234.718			
							221	258.999			
							222	245.644			
						Total	1122.598		92.581	1215.179	
					मोहली मध्य	195	241.193	48	37.272		
							196	281.663			
							197	259.809			
							203	163.088			
							204	181.299			
						Total	1127.052		37.272	1164.324	
					मोहली पूर्व	198	236.336	49 A	2.683		
							199	246.049	49 B	37.782	
							200	300.278	49 C	4.484	
							201	194.245	49 D	25.827	
							202	254.144	49 E	6.546	
							Total	1231.052		77.322	1308.374
					Total - RA				5044.426		
		आंखीखेड़ा	आंखीखेड़ा पूर्व		163	168.754					
							164	199.105			
							165	223.792			
							169	183.323			
							171	231.885			
							Total	1006.859			1006.859
				आंखीखेड़ा पश्चिम		166	265.879				
							167	282.378			
							168	209.222			
							170	209.222			
							174	201.938			
							175	224.194			
						Total	1392.833			1392.833	
				खंगोरिया		156	233.908				
							162	215.697			
							172	211.651			
							173	291.375			
							179	253.333			
						Total	1205.964			1205.964	
						Total - RA				3605.656	
		गुड़ा			139	244.026	45	80.145			
							140	314.846			
							141	173.205			
							142	144.473			
							Total	876.550		80.145	956.695
				सलैया		132	260.214				
							136	245.645			
							137	250.501			
							138	285.709			
							148	200.319			
					Total	1242.388			1242.388		
		क्षेत्रना			150	225.815					
						151	220.958				
						152	300.278				

2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	मोहली	सलैया		153	302.301					
				180	277.210					
			Total		1326.562			1326.562		
		बलेह		131	247.263					
				154	237.146					
				155	218.126					
				157	190.202					
				158	320.512					
		Total		1213.249			1213.249			
		मानेगांव		127	284.089					
				128	222.982					
				159	215.697					
				160	82.151					
				161	239.979					
		Total		1044.898			1044.898			
	Total - RA								5783.792	
	बलेह	बलेह मध्य					41	140.100		
							42	211.600		
							43	292.600		
							44	346.618		
		Total						990.918	990.918	
		बलेह दक्षिण		130	262.236					
				133	193.035					
				134	250.500					
				135	171.183					
		Total		876.954					876.954	
		देवलपानी उत्तर		121	271.948			44 B	12.031	
				122	192.630					
				123	159.851					
				124	218.531					
Total			842.960				12.031	854.991		
देवलपानी दक्षिण		125	183.727			44 A	16.673			
		126	263.307			44 C	28.591			
		129	247.263							
Total		694.297				45.264	739.561			
Total - RA								3462.424		
कुडई	कुडई		101	209.222						
			102	211.246						
			104	216.507						
		Total		636.975				636.975		
	महुआसेमरा		118	286.518			40	123.800		
			119	189.393						
			120	242.003						
	Total		717.914				123.800	841.714		
	बेरखेड़ी		103	237.956			39	235.447		
			117	201.938						
Total		439.894				235.447	675.341			
Total - RA								2154.030		
बोमा	बोमा उत्तर		105	248.882						
			106	151.352						
			107	247.668						
			111	129.904						
	Total		777.806					777.806		
	बोमा दक्षिण		108	162.212						
			109	288.946						
			110	284.132						
			112	167.944						
	Total		903.294					903.294		
	बोमा पश्चिम		113	209.628						
			114	150.543						
			115	184.537						
		116	216.103							
Total		760.811					760.811			
Total - RA								2441.911		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Mohli Range Total				22492.239	
			घुघरी	143	222.982				
				144	220.958				
				145	154.185				
				146	46.134				
				147	222.172				
				149	219.744				
			Total	1086.175				1086.175	
		छिरारी	हिनौली	183	298.658				
				184	183.280				
				185	312.014				
				186	294.207				
			Total	1088.159				1088.159	
		हरदुआ	187	335.890	52	34.524			
			188	252.929					
			189	72.439					
			190	229.052					
			Total	890.310		34.524		924.834	
		Total - RA						3099.168	
सागर		सिमरिया	सिमरिया	192	165.112	50	36.000		
				208	238.307	50 A	102.963		
				209	331.037	51	23.700		
						53	305.289		
					54	108.000			
					Total	734.456		575.952	1310.408
			बरपानी पूर्व	207	281.661	60 A	16.848		
				213	278.828	60 B	13.632		
				214	278.019				
				215	244.836				
					Total	1083.344		30.480	1113.824
			मोकला	97	35.208	55	29.769		
		98		48.562	56	87.235			
					57	267.098			
					58	276.001			
					59	55.726			
				Total	83.770		715.829	799.599	
		बरपानी पश्चिम	210	288.846	60	169.834			
211	186.560								
212	268.711								
		Total	744.117		169.834	913.951			
		Total - RA						4137.782	
सिंगपुर		पीपला	230	210.437	61	87.640			
			231	324.153					
			232	285.302					
			236	225.005					
			239	178.872					
				Total	1223.769		87.640	1311.409	
		बिजनी	216	372.715					
			223	180.085					
			224	244.025					
			225	151.310					
			226	71.226					
			227	146.092					
			228	183.324					
			229	183.724					
				Total	1532.501			1532.501	
		खपराखेड़ा	191	204.367					
			193	202.748					
			194	213.675					
205	182.918								
206	334.270								
217	208.414								
		Total	1346.392			1346.392			
		Total - RA						4190.302	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		सिंगपुर	सिंगपुर	237	319.702	63	210.947		
					238	313.631			
					244	295.016			
					245	263.450			
				Total	1191.799		210.947	1402.746	
			सुना	233	262.236	62	320.560		
				234	262.641				
				235	185.752				
				Total	710.629		320.560	1031.189	
			रमपुरा	240	258.999				
				241	215.294				
				242	165.112				
				243	183.727				
				250	213.675				
				Total	1036.807			1036.807	
			पहला	246	273.972	63 A	59.000		
		247		273.972	63 B	82.141			
		248		244.025					
		249		178.063					
			Total	970.032		141.141	1111.173		
		Total - RA					4581.915		
		*मोहली (नदीन वनखण्ड)						194.5	194.500
		*मंडाज (नदीन वनखण्ड)						207.46	207.460
		Singpur Range Total							16411.127
		झमारा	झमारा	287	358.956	79	26.151		
					288	269.116			
					289	248.477			
					290	293.397			
				Total	1169.946		26.151	1196.097	
			पुटदेही	285	343.578	78	62.225		
				284	318.083	80	96.357		
				286	215.696	81	11.278		
				282	258.999				
				Total	1136.356		169.860	1306.216	
			तरा	276	257.785	82	173.516		
				277	203.153				
				278	289.755				
				281	278.424				
				Total	1029.117		173.516	1202.633	
			रमखिरिया	268	274.783	77 A	32.019		
		269		344.388	77 B	6.948			
					77 C	3.541			
					75	168.231			
			Total	619.171		210.739	829.910		
		Total - RA					4534.856		
		बारहा	खकरिया	265	268.711	74	304.440		
					266	220.554	72	380.412	
					267	197.891			
				Total	687.156		684.852	1372.008	
			भडरा	270	254.952	69	86.483		
				271	324.558				
				283	319.702				
				Total	899.212		86.483	985.695	
			पुरैना	260	269.521	70	78.510		
				261	304.728	71	226.511		
				262	226.624	76	30.898		
				263	265.166				
				264	216.744				
				Total	1282.783		335.919	1618.702	
			ईश्वरपुर	257	366.241	67	330.267		
				258	300.277				
		259		286.113					
		272		264.260					
			Total	1216.891		330.267	1547.158		

2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Total - RA				5523.563
	नौरादेही	नौरादेही	नौरादेही	274	255.357	68	45.030	
				275	183.324			
				279	298.658			
				280	299.467			
				Total	1036.806		45.030	1081.836
			कुशायरी	251	256.571			
				254	223.791			
				252	315.655			
				253	218.530			
				Total	1014.547			1014.547
		जोगीपुरा	255	312.013	66	17.106		
			256	367.051				
			273	306.371				
			Total	985.435		17.106	1002.541	
		बीना			64	258.060		
					65	338.087		
				Total		596.147	596.147	
				Total - RA				3695.071
	महाराजपुर	नंदेपिपरिया	296	319.702	73	340.348		
				297	282.872			
				Total	602.574		340.348	942.922
		अरसी पूर्व	298	252.929	89 A	40.048		
				299	166.730	89 B	3.095	
				300	224.600			
				301	227.029			
				304	150.543			
			Total	1021.831		43.143	1064.974	
		अरसी पश्चिम	302	128.285	90	160.400		
				303	109.265	91	378.200	
						92	146.900	
				93	225.300			
		Total	237.550		910.800	1148.350		
			Total - RA				3156.246	
	सर्गभरई	सर्गभरई	305	255.357	88	126.535		
				306	273.163			
				307	212.860			
				308	236.346			
				313	212.860			
				314	254.143			
			Total	1444.729		126.535	1571.264	
		छिगोड़ा	291	281.251	86	327.341		
				292	305.133	87	9.328	
				293	277.614			
				294	216.102			
				295	202.747			
			Total	1282.847		336.669	1619.516	
		बंधासिमरिया	309	288.946	83 A	77.074		
				310	220.554	83 B	13.209	
				311	277.972	84	176.709	
				312	283.783	85	46.025	
			Total	1071.255		313.017	1384.272	
			Total - RA				4575.052	
			*भंडरा-अ (नवीन वनखण्ड)				164.44	164.440
			*भंडरा-ब (नवीन वनखण्ड)				116.675	116.675
			Noradehi Range Total				21765.903	
	सोमखेड़ा	सोमखेड़ा	135	521.200	130	81.843		
				136	648.300	218	69.392	
						133	30.647	
			Total	1169.500		181.882	1351.382	
		मुंडेरी	137	592.900	131	118.800		
				138	487.200	132	293.021	
			Total	1080.100		411.821	1491.921	
		मनका	131	576.300	219	9.219		

2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				132	756.800	220	16.199			
				Total	1333.100		25.418	1358.518		
			हरदुआ	133	591.200	221	419.180			
				Total	591.200		419.180	1010.380		
				Total - RA				5212.201		
	झापन	झापन		139	745.400	141	9.672			
				140	894.400	142	38.571			
						143	298.843			
						144	368.811			
				Total	1639.800		715.897	2355.697		
			लकलका		141	881.000	134	401.400		
						135	461.300			
						136	183.317			
						137	9.040			
				Total	881.000		1055.057	1936.057		
			उन्हारीखेड़ा		277	732.500	217	40.765		
					278	632.100				
					281	683.100				
					Total	2047.700		40.765	2088.465	
			तिंदनी पूर्व		275	571.000	216	26.127		
					276	525.300	215	34.015		
					Total	1096.300		60.142	1156.442	
			कुदपुरा		274	749.500				
					279	499.800				
					280	557.700				
				282	542.300					
				Total	2349.300			2349.300		
			Total - RA				9885.961			
			Jhapan Range Total				15098.162			
दमोह		सर्रा	सर्रा	263	553.600	210	47.575			
				264	889.500	211	89.676			
				265	517.600	209	31.160			
				266	509.900					
				Total	2470.600		168.411	2639.011		
			दुधिया	267	744.200					
				268	574.700					
				269	658.800					
				271	704.600					
				Total	2682.300			2682.300		
			तिंदनी पश्चिम	283	292.600					
				270	591.100					
		272		636.600						
		273		674.200						
			Total	2194.500			2194.500			
					Total - RA				7515.811	
		सर्रा		तारादेही	तारादेही	256	668.100			
						258	666.500			
						259	547.100			
						Total	1881.700			1881.700
बांसी	260				819.100	205	416.895			
						206	20.849			
						207	330.234			
	Total				819.100		767.978	1587.078		
कुसमी	254				513.500	203	136.102			
	255			566.200	204	80.804				
	257			484.000						
				Total	1563.700		216.906	1780.606		
मझगवा	171 A			43.300	212	38.469				
	261			732.900	208	82.391				
	262			974.900	213	122.444				
					214	98.036				
	Total			1751.100		341.340	2092.440			
					Total - RA				7341.824	
			245	836.900	201	53.281				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	
नरसिंहपुर	डोंगरगांव	सारसबगली	सारसबगली	248	659.700				
				249	727.200				
				250	938.100				
				Total	3161.900			53.281	3215.181
			रमपुरा	251	575.500	202	47.276		
				252	753.100				
				253	450.800				
				Total	1779.400			47.276	1826.676
			कोटखेड़ा	246	821.500	199	39.218		
				247	651.100	200	52.180		
				Total	1472.600			91.398	1563.998
						Total - RA			6605.855
					Sarra Range Total			21463.490	
		डोंगरगांव	डोंगरगांव	डोंगरगांव	445	371.600	684	289.260	
					444	374.730			
				Total	746.330			289.260	1035.590
			डोंगरगांव पश्चिम	डोंगरगांव पश्चिम	446	433.610			
				Total	433.610				433.610
			जोतखेड़ा	जोतखेड़ा	443	365.020			
				Total	365.020				365.020
						Total - RA			1834.220
हीरापुर	विक्रमपुर		विक्रमपुर	479	279.000	680	169.150		
			Total	279.000			169.150	448.150	
	मलकुही दक्षिण		मलकुही दक्षिण	462	306.750	685	465.780		
			464	305.040					
		Total	611.790			465.780	1077.570		
	बंदरोहा				681	250.900			
					682	390.520			
				683	520.420				
	Total				1161.840	1161.840			
			Total - RA			2687.560			
सरसैला	सरसैला	सरसैला	439	394.970	698	167.130			
					699	380.800			
	Total	394.970			547.930	942.900			
	बंदी	440	362.190						
	Total	362.190				362.190			
बिक्था	442	514.750							
Total	514.750					514.750			
			Total - RA			1819.840			
ढाना	ढाना पश्चिम	ढाना पश्चिम	457	259.760	691	216.910			
			458	392.540					
			459	281.600					
		Total	933.900			216.910	1150.810		
	ढाना पूर्व	ढाना पूर्व	460	283.730	689	242.400			
			461	260.380	690	110.880			
		Total	544.110			353.280	897.390		
	मलकुही उत्तर	मलकुही उत्तर	463	494.580					
			465	528.100					
			466	296.100					
			467	359.760					
		478	385.660						
Total	2064.200					2064.200			
			Total - RA			4112.400			
खापा	महका 1	महका 1	472	211.650					
			473	377.970					
			474	307.960					
		Total	897.580				897.580		
	महका 2	महका 2	470	424.910					
			471	289.750					
		Total	714.660				714.660		
	खापा 2	खापा 2	468	308.910					
			469	359.360					
		Total	668.270				668.270		
		475	235.930						

2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			खापा 1	476	300 627				
				477	483 710				
			Total		1020,267			1020,267	
			Total - RA					3300,777	
		आमापानी	आमापानी पूर्व	441	499 780				
				447	273 560				
				448	337 500				
				449	428 150				
				Total	1538,990				1538,990
			आमापानी पश्चिम	429	360 170				
				432	395 780				
				433	399,020				
				434	338 310				
				Total	1493,280				1493,280
		आमापानी मध्य	437	360 980	692	46,530			
			438	358,550					
			Total	719,530			46,530	766,060	
			Total - RA					3798,330	
		हांडीकाट	हांडीकाट 1	451	459 710				
				452	349 640				
				Total	809,350				809,350
			हांडीकाट 2	453	305 530				
				454	291,370				
				Total	596,900			596,900	
			महगवां	435	537 410				
				436	295 410				
				450	301 080				
				455	456 070				
		456		386 660					
			Total	1976,630			1976,630		
			Total - RA					3382,880	
		रीछई	कुन्हरोडा	430	404,280				
				Total	404,280			404,280	
			खमरिया	427	72 000				
				428	475 910				
				Total	547,910			547,910	
		रमखिरिया	431	486 430	702	444,330			
			Total	486,430		444,330	930,760		
			Total - RA				1882,950		
			Dongargaon Range Total						22818,957
		Nauradehi (Wild Life) Division Grand Total							120049,878

अनुसूची-2

टाईगर रिजर्व कोर-1 के अंतर्गत पूर्व में विस्थापित ग्रामों से प्राप्त रिक्त भूमि

क्र.	विस्थापित ग्राम का नाम	निजी भूमि	राजस्व भूमि	कुल प्राप्त रिक्त भूमि
1	2	3	4	5
1	बरपानी	74.660	15.940	90.600
2	तरा	113.780	142.770	256.550
3	भडरा	170.190	80.490	250.680
4	करनपुर	35.080	37.880	72.960
5	मढिया	63.620	28.180	91.800
6	बधा	38.180	56.880	95.060
7	बिजनी (वनग्राम)	0	0	50.020
8	कूसमी (लगरा)	82.740	344.140	426.880
9	तिंदनी	69.170	17.730	86.900
10	खापा	31.160	59.450	90.610
11	महका	22.640	65.680	88.320
12	सिंगपुरी (जामुनझिरी)	59.490	82.510	142.000
13	जामुनहटरी	38.500	56.130	94.630
14	महगवां (वनग्राम)	0	0	158.250
15	खापा (वनग्राम)	0	0	123.420
16	आमापानी	42.303	60.210	102.513
	योग -			2130.593

अनुसूची-3

टाईगर रिजर्व कोर-1 के अंतर्गत ग्रामों की सूची जो विस्थापन हेतु शेष

क्र.	जिले का नाम	गेम परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम की निजी भूमि (रकबा हे. में)	ग्राम की राजस्व भूमि (रकबा हे. में)	योग रकबा (हे. में)
1	2	3	5	6	7	8
1	सागर	मोहली	मोहली	463.900	369.690	833.590
2			पटनामोहली	144.890	121.230	266.120
3			खापा खंगोरिया	89.760	15.010	104.770
4			बोमा (वनग्राम)	0.000	0.000	0.000
5			बोमा (राजस्व)	66.820	24.650	91.470
6			देवलपानी	61.630	97.290	158.920
7			केसली	34.020	14.390	48.410
8			मानेगाव (वनग्राम)	0.000	0.000	0.000
9			आंखीखेड़ा	33.620	3.630	37.250
10		सिंगपुर	बंदरचुआ	64.410	11.930	76.340
11			घुघरी (वनग्राम)	0.000	0.000	0.000
12			केरपानी	59.620	139.730	199.350
13			बांसनी	106.320	97.010	203.330
14			मदनी	17.000	63.250	80.250
15			खपराखेड़ा (अप्राप्त)	0.000	0.000	0.000
16		नौरादेही	सिमरिया	187.200	107.390	294.590
17			सर्रा (भरई)	122.250	22.580	144.830
18			भरई	218.630	220.360	438.990
19			अरसी	156.230	75.940	232.170
20			छींद	199.410	64.230	263.640
21			छिगौड़ा	139.750	152.880	292.630
22			झमारा	345.310	158.090	503.400
23			अर्जुनदेही	164.450	194.350	358.800
24			पुटदेही	179.330	25.290	204.620
25			खमरापठार	84.470	50.750	135.220
26			जोगीपुरा	63.930	60.560	124.490
27			रमखिरिया	199.310	176.370	375.680
28			झमरा	124.900	27.410	152.310
29			पापरा	22.600	322.710	345.310

30			मोगरा	26.890	83.540	110.430
31	दमोह	झापन	मझगुवा	124.810	55.810	180.620
32			उन्हारीखेड़ा	125.850	15.800	141.650
33			उकरपार	144.260	639.660	783.920
34			डबा	65.670	13.350	79.020
35		सर्रा	पचपेढ	273.770	479.330	753.100
36			माधो	122.850	173.530	296.380
37			सर्रा	180.670	148.610	329.280
38			सरसैला	80.620	19.020	99.640
39			बोरिया	129.990	52.950	182.940
40			सनाई	186.900	282.430	469.330
41			देवरीकलां	188.080	281.630	469.710
42			देवरीशंकर	122.510	15.120	137.630
43			कुदपुरा	216.470	188.180	404.650
44			फूलर	203.920	116.640	320.560
45			भैंसा	226.270	181.630	407.900
46			दुधिया	85.000	49.300	134.300
47			सातापेरी	273.776	479.330	753.106
48			रमपुरा	118.700	383.860	502.560
49	नरसिंहपुर	डोंगरगांव	झिलपिनी	121.207	372.221	493.428
50			ढाना	139.393	103.116	242.509
51			मलकुही	170.022	524.359	694.381
52			हांडीकाट	99.475	25.822	125.297
			योग -	7886.666	8836.013	16722.679

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

क्र For/2/0010/2023/Sec-2-10

यतः राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उल्लिखित अनुसूची के क्षेत्र, जो नौरादेही अभयारण्य की सीमा के अंदर है, पारिस्थितिक, पशु वर्ग, वनस्पति, जियो-मार्सियोलॉजिकल या प्राणी विज्ञान संबंधी महत्व के कारणों से नौरादेही (वन्यजीव) और वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य को उनमें तथा उनके आस-पास वन्य पशुओं के संरक्षण, वृद्धि, विकास के प्रयोजन के लिए टाईगर रिजर्व के रूप में गठन किया जाना आवश्यक है।

अतएव वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38फ की उपधारा (4) के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, क्षेत्रों को वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व, सागर के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित करती है, अर्थात्:-

विवरण

1. टाईगर रिजर्व का नाम -वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व, (बफर एरिया)
2. टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमाएं-
 - (अ) जिला -सागर, दमोह तथा नरसिंहपुर
 - (ब) वनमंडल -दक्षिण सागर, नरसिंहपुर एवं दमोह वनमंडल
 - (स) बफर क्षेत्र का रकबा -925.120 वर्ग किलोमीटर

बफर क्षेत्र

क्र	मंडल कानाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	वन क्षेत्र	रकबा (हे.)
1	वनमंडल दमोह, नरसिंहपुर दक्षिण सागर	वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व का बफर क्षेत्र	वनक्षेत्र का विवरण- 1. दक्षिण सागर वनमंडल -आर.एफ.168.522 हे., पी.एफ.-687.891 हे. 2. दमोह वनमंडल आर.एफ.46882.040 हे., पी.एफ.-10899.380 हे. 3. नरसिंहपुर वनमंडल-पी.एफ.-5083.675 हे.	63721.508
2	राजस्व क्षेत्र- दक्षिण सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर वनमंडल का क्षेत्र	बफर क्षेत्र में सम्मिलित जिलावार राजस्व ग्रामों का क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र का विवरण- 1. जिला सागर -15998.587 हे. 2. जिला दमोह -8637.790 3. जिला नरसिंहपुर -4154.325 हे.	28790.702
			कुल बफर क्षेत्र	92512.210

उक्त बफर क्षेत्र में सम्मिलित वनकक्षों के ब्यौरे, अनुसूची-1 में तथा राजस्व ग्रामों की सूची अनुसूची-2 में है।

(द) सीमाओं का विवरण -

(क) टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमाओं के भौगोलिक निर्देशांक निम्नानुसार हैं:-
निर्देशांक

दिशा	अक्षांश	देशांतर
उत्तर	23 ⁰ 48'12.24"N	79 ⁰ 48'42.39"E
पूर्व	23 ⁰ 47'7.28"N	79 ⁰ 50'51.60" E
दक्षिण	23 ⁰ 4'44.11"N	79 ⁰ 6'48.07"E
पश्चिम	23 ⁰ 12'20.95"N	79 ⁰ 2'36.52"E

टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमाओं का विवरण:-

उत्तर:-नौरादेही वनमंडल के गेम परिक्षेत्र मोहली कक्ष क्र. आर.एफ. 141 की सीमा से 1 कि.मी. दूर कोपरा नदी की सीमा के साथ होते हुए गेम परिक्षेत्र झापन की सीमा से 1 कि.मी. दूर इको सेंसिटिव जोन की सीमा से होते हुए गेम परिक्षेत्र सर्रा के आरक्षित वन कक्ष क्र. 283 से 1 कि.मी. दूर इको सेंसिटिव जोन की सीमा से होते हुए व्यारमा नदी के साथ अभयारण्य की सीमा से 1 कि.मी. इको सेंसिटिव जोन की सीमा से होते हुए वनमंडल दमोह के परिक्षेत्र झलोन के वन कक्ष क्र. आर.एफ. 170 की उत्तरी सीमा से 147 की पश्चिमी सीमा, झलौन परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक पी.एफ. 147, आर.एफ. 169, 168, परिक्षेत्र तेन्दूखेडा के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 177, 178, 185, 186, 187 पी.एफ. 160 होते हुये परिक्षेत्र झलौन के 156 एवं 158 की पश्चिमी सीमा तक, झलौन परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक 158 की उत्तरी सीमा, परिक्षेत्र तेजगढ के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 161 एवं 151 की उत्तरी पश्चिमी सीमा, वनकक्ष क्रमांक 150 एवं पी.एफ. 109 की उत्तरी सीमा, पी.एफ. 51, आर.एफ. 329 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्रमांक पी.एफ. 46 से होते हुए, पी.एफ. 47, पी.एफ. 45, आर.एफ. 321, पी.एफ. 62, पी.एफ. 63, पी.एफ. 64 की उत्तरी सीमा तक, दमोह वनमंडल के अंतर्गत वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 310 की पश्चिमी सीमा होते हुए, परिक्षेत्र सिंग्रामपुर के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 300, आर.एफ. 301, परिक्षेत्र तेजगढ के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 303, पी.एफ. 25, पी.एफ. 26 की सीमा होते हुए, परिक्षेत्र सिंग्रामपुर के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 426, 427, 430, 431, 432 की उत्तरी सीमा से होते हुए परिक्षेत्र सगौनी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 392, 391, 390, 388, 387 से होते हुए 284, आर.एफ. 386, 385 की उत्तरी सीमा तक।

पूर्व:- दमोह वनमंडल के परिक्षेत्र सगौनी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 385, 386 एवं 290 की पूर्वी सीमा, परिक्षेत्र सिंग्रामपुर के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 291, 287, 286, की पूर्वी सीमा एवं आर.एफ. 438, 437 की दक्षिणी पूर्वी सीमा, वनकक्ष क्रमांक पी.एफ. 08, पी.एफ. 12, 13, 14, 15, 16, 17 एवं आर.एफ. 311 होते हुए पी.एफ. 4, 3 एवं पी.एफ. 02 की पूर्वी सीमा तक, वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 313 की पूर्वी सीमा तक, परिक्षेत्र सिंग्रामपुर के वनकक्ष क्रमांक पी.एफ. 2, आर.एफ. 314, 315 पी.एफ. 73, 74 की दक्षिणी सीमा से होते हुए सिंग्रामपुर परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक पी.एफ. 77 एवं 78 की पूर्वी सीमा तथा पी.एफ. 78 आर.एफ. 318, 319 की दक्षिणी सीमा, सिंग्रामपुर परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 322 की दक्षिणी सीमा एवं पी.एफ. 59, 58, 57 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, सिंग्रामपुर परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 324 की दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा से होते हुए तेजगढ परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 332, पी.एफ. 163 की दक्षिणी सीमा, तेजगढ परिक्षेत्र के पी.एफ. 107, 108, 160, 161, 154 एवं परिक्षेत्र झलौन के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 157, परिक्षेत्र तेन्दूखेडा के पी.एफ. 157, आर.एफ. 187, पी.एफ. 159 की पूर्वी सीमा, तेन्दूखेडा परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 188, 166, 184 की पूर्वी सीमा, तेन्दूखेडा परिक्षेत्र के पी.एफ. 165 की दक्षिणी सीमा एवं आर.एफ. 179, 180, 181 की पूर्वी सीमा, तेन्दूखेडा परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 181 पी.एफ. 164, आर.एफ. 171, 172 की दक्षिणी सीमा, तेन्दूखेडा परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक पी.एफ. 162, 163 दक्षिणी सीमा से होते हुए नौरादेही वनमंडल के गेम परिक्षेत्र सर्रा के कक्ष क्र. आर.एफ. 260 की पूर्वी सीमा से 01 कि.मी. दूर इको सेंसिटिव जोन की सीमा से होते हुए गेम परिक्षेत्र डोंगरगांव के कक्ष क्र. पी.एफ. 680ए की सीमा से 01 कि.मी. दूर इको सेंसिटिव जोन की सीमा तक।

दक्षिण:-नरसिंहपुर वनमंडल के परिक्षेत्र डोंगरगांव के कक्ष क्र.पी.एफ. 384 से 379 एवं कक्ष क्र. 377, 376, 398 से परिक्षेत्र बरमान के कक्ष क्र. पी.एफ. 366 तक दक्षिणी सीमा।

पश्चिम:-नरसिंहपुर वनमंडल के परिक्षेत्र बरमान के कक्ष क्र. पी.एफ. 366 से 356 तक एवं नौरादेही वनमंडल के गेम परिक्षेत्र नौरादेही के कक्ष क्र. आर.एफ. 303 से पश्चिमी सीमा में 01 कि.मी. दूर इको सेंसिटिव जोन की सीमा से होते हुए वनमंडल दक्षिण, सागर के कक्ष क्र. 999, 998, नवीन कक्ष क्र. 1142, 1157, 1149, 1158 की पश्चिमी सीमा से गेम परिक्षेत्र मोहली के कक्ष क्र. आर.एफ. 141 तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

क्रमांक For-2-0010-2023-Sec-2-दस.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक For-2-0010-2023-Sec-2-दस, दिनांक 20 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 20th September 2023

S.No.For/2/0010/2023/Sec-2-10

Whereas, the State Government appears to have the areas of the outlined schedule, which are within the limits of the Nauradehi Sanctuary. For reasons of ecological, animal class, flora, geo-martialological or zoological importance, Nauradehi (Wild Life) & Veerangana Durgavati Sanctuary is required to be formed as a Tiger Reserve for the purpose of conservation, growth and development of forest animals in and around them.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (iv) of section 38V of the Wildlife (Protection) Act. 1972 (53 of 1972), the State Government, hereby, declares the areas as Veerangana Durgavati Tiger Reserve. Sagar namely:-

Details

1. Name of Tiger Reserve - Buffer Area of Veerangana Durgavati Tiger Reserve, Sagar

2. Boundaries of Buffer Area of Tiger Reserve -

- i. District - Sagar, Damoh and Narsinghpur
- ii. Forest Division - South Sagar, Damoh, Narsinghpur Division
- iii. Buffer Area - 925.120 sq. Km.

Buffer Area

S. No.	Name of Division	Name of Area	Details of Included Area	Area (ha.)
1	Damoh, Narsinghpur, South Sagar	Buffer Area of Veerangana Durgavati Tiger Reserve	Details of Forest Area 1. South Sagar Division-RF- 168.522 ha. PF-687.891 ha. 2. Damoh Division-RF- 46882.040 ha. PF-10899.380 ha. 3. Narsinghpur Division-PF-5083.675 ha.	63721.508
2	Details of Revenue Area- South Sagar, Damoh and Narsinghpur	District wise Area of revenue villages are Included in Buffer Area	Details of Revenue Area 1. Sagar District - 15998.587 ha. 2. Damoh District -8637.790 ha. 3. Narsinghpur District -4154.325 ha.	28790.702
			Buffer Area Total	92512.210

The details of forest Compartment included in the above buffer area are in Schedule-I & the area of revenue villages are in Schedule-2.

iv. Description of Buffer Zone boundaries - Geographical coordinates of Tiger Reserve's Buffer Zone:-

Direction	Coordinate	
	Latitude	Longitude
North	23°48'12.24"N	79°48'42.39"E
East	23°47'7.28"N	79°50'51.60"E
South	23° 4'44.11"N	79°6'48.07"E
West	23°12'20.95"N	79°2'36.52"E

Details of the boundaries of Buffer Area -

- North-** Nauradehi Division's Range Mohli Compartment No. RF 141's boundary to 1 KM. distance Kopra river's boundary to Game Range Jhapan's boundary to 1 KM distance Eco Sensitive Zone Boundary to Game Range Sarra's Compartment No. PF 283 to 1 KM distance Eco Sensitive Zone's Boundary to Vyarma River's flow to sanctuary's boundary to 1 KM Eco Sensitive Zone Boundary to Damoh Vanmandal's Range Jhalon's Compartment No. RF 170's northern boundary to 147's western boundary, Jhalon Range's compartment no. 147, RF 169, 168, Range Tendukheda's compartment no. RF 177, 178, 185, 186, 187, PF 160 to Range Jhalon's 156 & 158's western boundary to Range Jhalon's compartment no. 158's northern boundary, range Tejgarh's compartment No. RF 161 & 11's northern western boundary, compartment no. 150 & PF 109's northern boundary, PF 51, RF 329's northern boundary to compartment No. PF 46 to PF 47, PF 45, RF 321, PF 62, PF 63, PF 64's northern boundary to Vanmandal Damoh's Veerangana Durgavati Sanctuary's compartment No. RF 310's western boundary to, range Singrampur's compartment No. RF 300, RF 301, Range Tejgarh's compartment no. RF 303, PF 25, PF 26's boundary to range Singrampur's compartment no. RF 426, 427, 430, 431, 432's northern boundary to range Sagoni's compartment no. 392, 391, 390, 388, 387 to 284, RF 386, 385's northern boundary.
- East-** Vanmandal Damoh's range Sagoni's compartment no. RF 385, 386 & 290's eastern boundary, Range Singrampur's compartment no. RF 291, 287, 286's eastern boundary, RF 438, 437's southern eastern boundary, compartment no. PF 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & RF 311 to PF 4, 3 & PF 02's eastern boundary to Veerangana Durgavati Sanctuary's compartment no. RF 313's eastern boundary, Range Singrampur's compartment no. PF 02, RF 314, 315, PF 73, 74's southern boundary to range Singrampur's compartment no. PF 77 & 78's eastern boundary & PF 78, RF 318, 319's southern boundary, range Singrampur's compartment no. RF 322's southern boundary & PF 59, 58, 57's eastern & southern boundary, range Singrampur's compartment No. RF 324's southern & western boundary to range Tejgarh's compartment no. RF 332, PF 163's southern boundary to range Tejgarh's compartment no. PF 107, 108, 160, 161,

154 & range Jhalon's compartment no. RF 157, range Tendukheda's compartment no. PF 157, RF 187, PF 159's eastern boundary, range Tendukheda's compartment no. PF 165's southern boundary & RF 179, 180, 181's eastern boundary, range Tendukheda's compartment no. RF 181, PF 164, RF 171, 172's southern boundary, range Tendukheda's compartment no. PF 162, 163's southern boundary to Nauradehi Wildlife Sanctuary's Game Range Sarra's compartment No. RF 260's eastern boundary to 1 KM distance Eco Sensitive Zone's boundary to Game Range Dongargaon's compartment no. PF 680A's boundary to 1 KM distance Eco Sensitive Zone's boundary.

South- Narsingh Forest Division's Range Dongargaon's compartment No. PF 384 to 379 & compartment no. 377, 376, 398 to range Barman's compartment No. PF 366's Southern boundary.

West- Narsinghpur Forest Division's Range Barman's Compartment No. PF 366 to 356 & Nauradehi (Wild Life) Division's Game Range Noradehi's Compartment No. RF 303's southern boundary's 01 Km distance Eco-Sensitive Zone boundary to South Sagar Division's Compartment No. 999, 998, New Compartment No. 1142, 1157, 1149, 1158's Southern Boundary to Nauradehi (Wild Life) Division's Game Range Mohli's Compartment No. RF 141.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

अनुसूची-1

वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रांतर्गत आने वाले अन्य वनमंडलों के कक्षों का विवरण

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	आर.एफ. कक्ष क्रमांक	रकबा (हे.में)	पी.एफ. कक्ष क्रमांक	रकबा (हे. में)		
2	3	4			5		
दक्षिण वनमंडल, सागर	ढाना	RF 921	168.522	PF 998	148.111		
	गौरझामर			PF 999	57.312		
				PF 1142	312.032		
				PF 1158	82.201		
				PF 1149	40.841		
				PF 1157	47.394		
	देवरी						
		योग 01 कक्ष -	168.522	योग 06 कक्ष -	687.891		
योग दक्षिण वनमंडल क्षेत्र -					856.412		
नरसिंहपुर	बरमान			PF 356	380.789		
				PF 357	158.288		
				PF 358	319.279		
				PF 359	572.323		
				PF 360	385.699		
				PF 361	162.106		
				PF 362	231.333		
				PF 363	277.320		
				PF 364	200.617		
				PF 365	230.168		
				PF 366	372.925		
				PF 364	98.840		
				PF 262	49.197		
				PF 365	49.420		
		डोंगरगांव				PF 376	23.964
						PF 398	39.576
						PF 377	119.444
					PF 379	309.482	
					PF 380	207.039	
					PF 381	77.242	
				PF 382	273.361		
				PF 383	86.377		
				PF 384	365.793		
			PF 381	93.093			

योग नरसिंहपुर वनमंडल क्षेत्र --				योग 24 कक्ष --	5083.675
दमोह	तारादेही	RF 237	625.498	PF 198	24.079
		RF 244	96.638	PF 194	206.266
		RF 221	263.735		
		RF 243	518.895		
		RF 238	490.069		
		RF 239	685.443		
		RF 241	532.684		
		RF 240	504.572		
	झलोन	RF 166	322.818	PF 145	17.529
		RF 165	365.081	PF 140	25.810
		RF-170	511.9	PF 139	51.984
		RF-173	351.92	PF- 147	233.45
		RF-176	523.38		
		RF-168	417.21		
		RF-169	558.31		
		RF-156	663.44		
		RF-157	544.59		
		RF-158	1007.33		
	दमोह	RF 130	605.206	PF 255	15.260
		RF 129	353.856	PF 222	226.448
		RF 128	810.857	PF 223	6.093
		RF 120	664.655		
		RF 119	658.452		
	तेदूखेड़ा	RF-171	346.9	PF- 164	96.02
		RF-172	621.92	PF- 165	17.4
		RF-174	354.16	PF- 166	258.99
		RF-175	414.78	PF- 157	36.02
		RF-177	581.93	PF- 159	10.55
		RF-178	560.12	PF- 160	475.87
		RF-179	604.31	PF- 162	8.19
		RF-180	511.47	PF- 163	121.46
		RF-181	704.91		
		RF-184	625.07		
		RF-185	548.5		
RF-186		454.38			
तेजगढ़	RF-303	440.07	PF- 25	276.62	
	RF-307	347.6	PF- 26	253.73	
	RF-320	694.8	PF- 45	155.54	
	RF-321	674.43	PF- 46	10.52	

		RF-325	697.07	PF- 47	189.49
		RF-329	674.02	PF- 154	506.64
		RF-326	462.9	PF- 107	198.43
		RF-330	528.81	PF- 108	256.17
		RF-331	521.25	PF- 109	6.47
		RF-332	692.38	PF- 111	29.53
		RF-160	802.5	PF- 113	16.02
		RF-161	779.33	PF- 62	375.03
		RF-162	598.05	PF- 63	257.3
		RF-163	972.89	PF- 64	306.03
		RF-151	412.24		
		RF-150	541.19		
	सिंग्रामपुर	RF-285	444.84	PF- 8	275
		RF-286	472.38	PF- 2	427.75
		RF-287	362.86	PF- 3	47.9
		RF-288	539.53	PF- 4	46.45
		RF-291	432.07	PF- 9	304.89
		RF-289	432.96	PF- 10	148.41
		RF-299	654.78	PF- 11	134.66
		RF-300	409.04	PF- 12	172.19
		RF-301	621.15	PF- 13	238.33
		RF-302	418.29	PF- 14	235.49
		RF-311	397.85	PF- 15	198.38
		RF-314	362.06	PF- 16	134.83
		RF-315	599.1	PF- 17	165.58
		RF-317	525.68	PF- 18	330.93
		RF-318	709.03	PF- 19	443.78
		RF-319	776.22	PF- 20	265.27
		RF-322	510.54	PF- 21	238.8
		RF-323	788.2	PF- 57	222.85
		RF-324	960.19	PF- 58	117.02
		RF-427	408.55	PF- 59	174.57
		RF-434	232.11	PF- 73	244.55
		RF-435	140.55	PF- 74	281.76
		RF-426	295.86	PF- 77	293.49
		RF-428	443.27	PF- 78	330.42
		RF-429	521.12	PF- 65	210.08
		RF-430	425.69	PF- 66	235.70
		RF-431	464.96	PF- 72	126.23
		RF-432	264.65	PF- 75	174.93
		RF-433	251.05	PF- 76	202.60

		RF-436	373.8	PF- 22	22.05
		RF-437	260.85		
		RF-438	143.03		
	सगौनी	RF-290	479.2		
		RF-385	334.55		
		RF-386	298.34		
		RF-387	354.66		
		RF-388	351.36		
		RF-284	186.56		
		RF-390	469.15		
		RF-391	392.79		
		RF- 392	330.62		
		योग 94 कक्ष -	46882.040	योग 61 कक्ष -	10899.380
योग दमोह वनमंडल क्षेत्र -					58246.420
महायोग -		योग 95 कक्ष -	47050.562	योग 93 कक्ष -	16670.946
	महायोग -			63721.508	

अनुसूची -2


वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.	जिला	प्रभाग के नाम	ग्राम का नाम	देशांतर	अक्षांश
1	2	3	4	5	6
1	सागर	नौरादेही	खजुरिया	79°21'12.66पू.	23°40'44.46उ.
2	सागर	नौरादेही	बेरखेडी	79°16'34.41पू.	23°42'44.71उ.
3	सागर	नौरादेही	महुआसेमरा	79°14'54.72पू.	23°41'7.80उ.
4	सागर	नौरादेही	तालसेमरा	79°14'27.65पू.	23°40'35.14उ.
5	सागर	नौरादेही	खारेतला	79°13'52.77पू.	23°39'58.78उ.
6	सागर	नौरादेही	बलेह	79°13'4.77पू.	23°38'38.22उ.
7	सागर	नौरादेही	सलैया	79°13'18.67पू.	23°37'56.85उ.
8	सागर	नौरादेही	गुडारखुर्द	79°11'47.58पू.	23°37'19.93उ.
9	सागर	नौरादेही	गुडाकलां	79°11'17.51पू.	23°37'53.04उ.
10	सागर	नौरादेही	गोपालपुरा	79°10'37.07पू.	23°37'21.43उ.
11	सागर	नौरादेही	बगासपुर	79°9'44.13पू.	23°36'25.08उ.
12	सागर	नौरादेही	छिरारी	79°8'46.41पू.	23°35'2.41उ.
13	सागर	नौरादेही	हिनौती	79°10'55.36पू.	23°33'36.93उ.
14	सागर	नौरादेही	हरदुआ	79°10'16.39पू.	23°33'16.44उ.
15	सागर	नौरादेही	बम्होरी	79°9'13.08पू.	23°33'36.32उ.
16	सागर	नौरादेही	चनगुवां	79°9'44.65पू.	23°33'5.27उ.
17	सागर	नौरादेही	सिमरिया	79°9'11.33पू.	23°32'19.31उ.
18	सागर	नौरादेही	सरखेडा	79°7'54.86पू.	23°31'24.29उ.
19	सागर	नौरादेही	डुगरिया मोहली	79°7'47.56पू.	23°30'34.27उ.
20	सागर	नौरादेही	मोकला	79°5'30.41पू.	23°28'59.12उ.
21	सागर	नौरादेही	कुसमी	79°5'49.74पू.	23°27'0.51उ.
22	सागर	नौरादेही	सुना	79°7'8.47पू.	23°27'54.25उ.
23	सागर	नौरादेही	नेगुवां	79°8'19.91पू.	23°29'43.91उ.
24	सागर	नौरादेही	कथौटिया	79°8'9.81पू.	23°27'52.69उ.
25	सागर	नौरादेही	हरदुली	79°6'6.34पू.	23°16'53.67उ.
26	सागर	नौरादेही	जमुनिया	79°4'33.41पू.	23°15'17.49उ.
27	सागर	नौरादेही	मझगुवां	79°4'9.13पू.	23°14'41.07उ.
28	सागर	नौरादेही	करनपुर	79°3'23.88पू.	23°13'44.17उ.

29	सागर	नौरादेही	सर्रा	79° 6'30.90पू	23°18'38.95उ.
30	सागर	नौरादेही	बीना	79° 5'26.67पू	23°21'52.22उ.
31	सागर	नौरादेही	ईश्वरपुर	79° 6'28.66पू	23°21'8.77उ.
32	सागर	नौरादेही	पुरैना	79° 5'48.19पू	23°19'25.84उ.
33	सागर	नौरादेही	सर्रादलपत	79° 5'33.41पू	23°18'44.08उ.
34	सागर	नौरादेही	खजूरा	79° 6'8.96पू	23°18'10.62उ.
35	दमोह	नौरादेही	चिरई	79°22'33.10पू	23°38'42.65उ.
36	दमोह	नौरादेही	मनकागांव	79°21'56.57पू	23°37'4.65उ.
37	दमोह	नौरादेही	हिनौती	79°19'30.81पू	23°35'22.10उ.
38	दमोह	नौरादेही	मुडैरी	79°20'15.44पू	23°34'28.28उ.
39	दमोह	नौरादेही	अमतीकलां	79°20'6.53पू	23°33'47.30उ.
40	दमोह	नौरादेही	खागर	79°21'34.87पू	23°36'35.58उ.
41	दमोह	नौरादेही	मौजाकलां	79°21'6.19पू	23°35'44.13उ.
42	दमोह	नौरादेही	सुहेला	79°22'54.05पू	23°34'41.98उ.
43	दमोह	नौरादेही	जमुनिया	79°24'29.74पू	23°35'6.12उ.
44	दमोह	नौरादेही	सोमखेडा	79°24'15.68पू	23°34'4.79उ.
45	दमोह	नौरादेही	डुहली	79°22'0.99पू	23°31'19.30उ.
46	दमोह	नौरादेही	ग्वारी	79°21'59.72पू	23°31'28.68उ.
47	दमोह	नौरादेही	सूरादेही	79°22'9.97पू	23°30'50.62उ.
48	दमोह	नौरादेही	नगाबहार	79°22'5.71पू	23°30'34.03उ.
49	दमोह	नौरादेही	नयाखेडा	79°22'12.41पू	23°30'22.03उ.
50	दमोह	नौरादेही	झापन	79°22'17.34पू	23°30'9.41उ.
51	दमोह	नौरादेही	सेहरी	79°21'47.23पू	23°27'20.99उ.
52	दमोह	नौरादेही	ढाना	79°19'43.62पू	23°25'36.86उ.
53	दमोह	नौरादेही	चीमाढाना	79°20'24.18पू	23°25'36.94उ.
54	दमोह	नौरादेही	चिखली	79°19'51.78पू	23°19'44.88उ.
55	दमोह	नौरादेही	बांसी	79°20'21.43पू	23°19'37.27उ.
56	दमोह	नौरादेही	पिडरई	79°19'56.58पू	23°18'57.17उ.
57	दमोह	नौरादेही	कोपादेवरी	79°20'33.73पू	23°17'46.88उ.
58	दमोह	नौरादेही	तारादेही	79°20'57.92पू	23°17'18.42उ.
59	दमोह	नौरादेही	झमरा	79°19'20.02पू	23°15'13.12उ.
60	दमोह	नौरादेही	पीपला	79°18'48.89पू	23°16'50.68उ.
61	दमोह	नौरादेही	खमतारा	79°18'38.85पू	23°17'41.53उ.

62	दमोह	नौरादेही	सारसबगली	79°19'23.52पू.	23°16'1.93उ.
63	दमोह	नौरादेही	चौरखमरिया	79°19'39.43पू.	23°16'29.97उ.
64	दमोह	नौरादेही	सर्रातुड़ा	79°19'10.88पू.	23°16'0.39उ.
65	दमोह	नौरादेही	कोटखेड़ा	79°19'14.07पू.	23°15'13.19उ.
66	दमोह	नौरादेही	कोसमदा	79°18'57.07पू.	23°14'26.60उ.
67	दमोह	दमोह	देवतरा	23°40'35.02''पू.	79°48'11.56''उ.
68	दमोह	दमोह	सिंग्रामपुर	23°32'51.80''पू.	79°47'38.61''उ.
69	दमोह	दमोह	गुबराकला	23°31'39.19''पू.	79°49'33.85''उ.
70	दमोह	दमोह	जबेरा	23°29'53.40''पू.	79°43'57.86''उ.
71	दमोह	दमोह	दुगानी	23°34'32.31''पू.	79°42'40.00''उ.
72	दमोह	दमोह	रामसलैया	23°31'1.87''पू.	79°41'1.22''उ.
73	दमोह	दमोह	सहसना	23°32'1.40''पू.	79°47'32.09''उ.
74	दमोह	दमोह	मुडेरी	23°33'37.39''पू.	79°46'52.51''उ.
75	दमोह	दमोह	कलूमर	23°29'24.04''पू.	79°44'9.07''उ.
76	नरसिंहपुर	नौरादेही	रमखिरिया	79°9'49.02पू.	23°5'47.79उ.
77	नरसिंहपुर	नौरादेही	बंदरोहा	79°20'9.62पू.	23°6'35.24उ.
78	नरसिंहपुर	नौरादेही	खापा	79°20'34.70पू.	23°7'26.86उ.
79	नरसिंहपुर	नौरादेही	मातापुर	79°21'13.15पू.	23°7'9.98उ.
80	नरसिंहपुर	नौरादेही	विक्रमपुर	79°21'41.17पू.	23°8'58.67उ.
81	नरसिंहपुर	नौरादेही	समनापुर	79°7'35.48''पू.	23°5'40.97''उ.

Veerangana Durgawati Tiger Reserve Buffer Area



Veerangana Rani Durgawati Tiger Reserve Core & Buffer Map

